



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47]  
No. 47]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 1978/माघ 14, 1899  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 1978/MAGHA 14, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)  
आवृत्ति

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1978

का. आ. 61(अ.)/15/आई. डी. आर. ए/78.—अहमदाबाद लक्ष्मी कॉटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, अहमदाबाद नामक औद्योगिक उपक्रम, अनुसूचित उद्योग अर्थात् सूती वस्त्र उद्योग में लगा है;

और केन्द्रीय सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम में विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन, पञ्चदशकों द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम के बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप, ठप्प हो गया है, जिसके लिए, विद्यमान आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखते हुए, कोई औचित्य नहीं है;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त उपक्रम के बन्द होने से उत्पन्न होने वाली स्थिति को सुधारने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त अनुसूचित उद्योग में उत्पादन में कमी न आए, जो लोक हित के लिए अपायकर है, आपाती उपाय करना समीचीन है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 85) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामने की परिस्थितियों का पूरा-पूरा और सम्पूर्ण अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, व्यक्तियों का एक निकट निर्युक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

अध्यक्ष

1. श्री आई. बी. दत्त, सेवानिवृत्त अपर वस्त्र आयुक्त, द्वारा बाम्बे रिंग ट्रैबलर्स प्राइवेट लिमिटेड, नंगल हाउस, बल्लर्ड एस्टेट, मुम्बई-1।

सदस्य

2. श्री. वी. बी. वृत्त, उप सचिव, उद्योग, खान और विद्युत् विभाग, गुजरात सरकार।
3. श्री टी. एस. वी. पाण्डुरंग शर्मा, गंयुक्त निवेशक (निरीक्षण), प्रादेशिक निदेशक का कार्यालय, कम्पनी ला बोर्ड, एवरेस्ट भवन, 100, मरीन ड्राइव, मुम्बई।

सदस्य-सचिव

4. श्री सी. के. फडके, निदेशक, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, पोस्ट बाक्स सं. 11500, मुम्बई-400020।

उपर्युक्त निकट राजपत्र में इस आवृत्ति के प्रकाशन की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[सं. फा. 3/1/78-सी. यू. सी.]  
जी. बी. रामकृष्ण, अपर सचिव

**MINISTRY OF INDUSTRY****(Department of Industrial Development)****ORDER**

New Delhi, the 3rd February, 1978

**S.O. 61(E)/15/IDRA/78.**—Whereas the industrial undertaking known as the Ahmedabad Laxmi Cotton Mills Company Limited, Ahmedabad, is engaged in the scheduled industry, namely, cotton textile industry;

And whereas it has come to the notice of the Central Government that the production of the articles manufactured in the said industrial undertaking has come to a standstill consequent upon the closure of the said industrial undertaking by the management for which having regard to the economic conditions prevailing there is no justification;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient to take urgent measures to remedy the situation arising out of the closure of the said undertaking and to ensure that production in the said scheduled industry does not suffer to the detriment of the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby

appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of :

**CHAIRMAN**

1. Shri I. B. Dutt, Retired Additional Textile Commissioner, C/o Bombay Ring Travellers Private Limited, Naval House, Bullard Estate, Bombay-1.

**MEMBERS**

2. Shri V. B. Buch, Deputy Secretary, Industries, Mines and Power Department, Government of Gujarat.
3. Shri T. S. V. Panduranga Sarma, Joint Director, (Inspection), Office of the Regional Director, Company Law Board, Everest Building, 100, Marine Drive, Bombay.

**MEMBER SECRETARY**

4. Shri C. K. Phadke, Director, Office of the Textile Commissioner, Post Box No. 11500, Bombay-400020.

The above body shall submit its report within a period of six weeks from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[File No. 3/1/78-CUC]

G. V. RAMAKRISHNA, Addl Secy.